

Examrace: Downloaded from examrace.com

For solved question bank visit doorsteptutor.com and for free video lectures visit [Examrace YouTube Channel](#)

Major Culture Part – 2

Get unlimited access to the best preparation resource for CTET : Get [detailed illustrated notes covering entire syllabus](#): point-by-point for high retention.

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अफगानिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित (Prime Minister Narendra Modi Awarded Afghanistan'S Highest Civilian Award - Culture)

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अफगानिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार अमीर अमानुल्ला खान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले वे पहले भारतीय हैं।
- यह अफगान सरकार द्वारा अफगानी और विदेशी नागरिकों को उनकी सेवाओं की सराहना में प्रदान किया जाता है।
- इस पुरस्कार का नामकरण अफगानी राष्ट्रीय नायक अमानुल्ला खान (गाज़ी) के नाम पर किया गया है। जिन्होंने अफगानिस्तान को स्वतंत्रता दिलायी थी।
- वह 1919 - 1929 तक अफगानिस्तानी अमीरात के शासक थे। उन्होंने अफगानिस्तान के स्वतंत्रता अभियान का नेतृत्व किया था और बाद में अफगानिस्तान को आधुनिक बनाने का प्रयास किया। उनके भारत के साथ मजबूत संबंध थे।

मोगाओ गुफाएँ (Mogao Caves - Culture)

- मोगाओ गुफाएँ, ढूँहआनग ओएसिस (मरूस्थल के बीच हरित भूमि) के दक्षिण-पूर्व में सैकड़ों की संख्या में, चीन के गांसु प्रांत में दचुआन नदी के ऊपर चट्टानों में सूखे गोबी रेगिस्तान के बीच में खुदी हुई हैं।
- यह बौद्ध भिक्षुओं के ध्यान और आश्रय के लिए बनायी गयी थी। इनमें भित्ति चित्र, चित्रित मूर्तियाँ, प्राचीन वास्तुकला, चल सांस्कृतिक अवशेष और उनकी सेटिंग्स (वातावरण/मंच-सज्जा) हैं। यह बौद्ध धर्म की यात्रा का विवरण देती हैं।
- बौद्ध गुफा कला ने तीसरी शताब्दी में भारत में जन्म लेकर ढूँहआनग तक की यात्रा की, जो सिल्क रोड के साथ और बामियान, कुछा-कुजील, (Kucha-Kizil, Turfan) टरफेन के चौराहे का एक प्रमुख बिंदु था।
- मध्ययुगीन राजनीति, अर्थशास्त्र, संस्कृति, कला, धर्म, जातीय संबंधों और पश्चिमी चीन में दैनिक पोशाक के विभिन्न पहलुओं का चित्रण करने के कारण यह गुफाएं विस्तृत सामग्री बहुतायत में उपलब्ध करा रही है।
- वे प्राचीन भारतीय एवं गांधार रीति-रिवाज़ और तुर्क, प्राचीन तिब्बतियों और अन्य चीनी जातीय अल्पसंख्यकों की कला के साथ हान चीनी कलात्मक परंपरा का एक मिश्रण है।

- मोगाओं गुफ़ाएँ 1987 में विश्व धरोहर सूची में दर्ज की गयी। एक राज्य के रूप में चीन ने सभी विश्व विरासत स्थलों को शीर्ष स्तर के संरक्षण के तहत रखा है।

Developed by: [Mindsprite Solutions](#)